



कार्यालय प्रधानाचार्य :: जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज :: कानपुर।

Tel.:+91-51272535483, E-mail : gsvm@yahoo.co.in, website : www.gsvmmmedicalcollege.com

संख्या: 375/नॉन पी०जी०-डिर्मांस०/छा०लि०-1

दिनांक: 10-11-2023

-: सेवायोजन विज्ञप्ति :-

इस कार्यालय के पूर्व सेवायोजन विज्ञप्ति संख्या- 374 दिनांक 09-11-2023 में इस चिकित्सा महाविद्यालय के न्यूरोसर्जरी विभाग में रिक्त नॉन पी०जी० जे०आर० का विवरण त्रुटिवश अंकन न होने के कारण, उक्त विज्ञप्ति में आंशिक संशोधन करते हुये पूर्ण विवरण सहित निम्नांकित नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट्स/डिर्मांसट्रेटर के पदों को भरे जाने हेतु दिनांक- 18, नवम्बर, 2023 दिन शनिवार को समय प्रातः 10:30 बजे से अपरान्ह 1:30 बजे के मध्य अपने समस्त मूल शैक्षणिक अभिलेखों एवं एक प्रति स्वप्रमाणित छायाप्रतियों सहित इस चिकित्सा महाविद्यालय के एल०टी०-1/एल०टी०-2, जी०एस०वी०एम० मेडिकल कालेज, कानपुर में अभिलेखों के सत्यापन/वॉक इन इण्टरव्यू हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करे। संशोधन उपरान्त पूर्ण रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :

नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट (शास० सं०- 156 दि० 13-06-2018, नियत वेतन रूपया 63,000/- प्रतिमाह)

क्र०	विशिष्टता	रिक्तपदों की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ावर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचितजनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर
1	अस्थिरोग	10	04	02	02	-	02
2	आब्स एण्ड गायनी	07	03	03	-	-	01
3	ट्रांसप्यूजन मेडिसिन	02	01	01	-	-	-
4	इमरजेन्सी	02	-	-	01	-	01
5	निश्चेतना	02	01	01	-	-	-
6	ई०एन०टी०	01	01	-	-	-	-
7	जनरल मेडिसिन	14	06	03	03	01	01
8	जनरल सर्जरी	08	03	03	01	-	01
9	टी०बी० एण्ड चेस्ट	05	02	02	01	-	-
10	न्यूरोलाजी	05	03	-	02	-	-
11	न्यूरोसर्जरी	06	03	02	01	-	-
12	पीडियाट्रिक्स	08	01	04	01	-	02
13	रेडियोथिरेपी	02	-	01	01	-	-
14	रेडियोडायग्नोसिस	01	01	-	-	-	-
	योग	73	29	22	13	01	08

नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट/डिर्मांसट्रेटर (शासनादेश सं०- 3126 दिनांक 07-09-2010, शासनादेश सं०- 4701 दिनांक 05-08-1993 एवं वेतनमान रूपया 56100, लेवल-10 अन्य भत्ते तथा शास० सं०- 156 दि० 13-06-2018, नियत वेतन रूपया 63,000/- प्रतिमाह)

क्र०	विशिष्टता	रिक्तपदों की संख्या	अनारक्षित	अन्य पिछड़ावर्ग	अनुसूचितजाति	अनुसूचितजनजाति	आर्थिक रूप से कमजोर
1	एनाटमी	02	01	-	01	-	-
2	कम्युनिटी मेडिसिन	02	01	-	01	-	-
3	फोरेन्सिक मेडिसिन	01	-	-	01	-	-
4	चर्म रोग	03	-	01	-	-	02
5	बायोकेमिस्ट्री	05	02	02	01	-	-
6	माइक्रोबायोलॉजी	04	01	01	01	-	01
7	मानसिक रोग	03	01	01	-	-	-
8	ट्रामा सेंटर	02	-	02	-	-	-
	योग	22	06	07	05	-	04

उक्त रिक्त नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट के पदों का कार्यकाल अवधि अस्थायी एवं टेन्चोर (सीमित अवधि) अधिकतम एक वर्ष तक ही होगा। नान पी०जी० जूनियर रेजीडेण्ट्स/डिर्मांसट्रेटर के पदों पर आवेदन करने हेतु इस चिकित्सा महाविद्यालय के लिंक <https://forms.gle/sJLM71ofTFmAsDFC8> पर दिनांक 17-11-2023 को अपरान्ह 02-00 बजे तक ही अपना विवरण भर कर प्रेषित करना सुनिश्चित करें। उक्त निर्धारित तिथि व समय तथा अन्य किसी माध्यम से प्राप्त आवेदन फार्म साक्षात्कार हेतु मान्य नहीं होंगे। पदों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

नियम एवं शर्तें :

- उक्त पदों हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने समस्त मूल शैक्षिक प्रमाण-पत्रों एवं 02 नवीन फोटो, मेडिकल काउंसिल के स्थाई पंजीकरण व सहित उपस्थित होना अनिवार्य है। आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में शासकीय नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी तथा साक्षात्कार में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय न होगा।
- एनाटमी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी मेडिसिन की विशिष्टता में अर्हता- एम0बी0बी0एस0 अथवा एम0एस0सी0-मेडिकल एनाटमी/बायोकेमिस्ट्री/माइक्रोबायोलॉजी/कम्युनिटी मेडिसिन विभाग
- चयनित अभ्यर्थियों की सूची इस कॉलेज के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी तथा सम्बन्धित को नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने हेतु मोबाईल से सूचित किया जायेगा, जो कि कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्राप्त करना होगा। डाक व अन्य माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रेषित नहीं किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों को विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी के निर्देशानुसार विभाग के अतिरिक्त आकस्मिक विभाग में आकस्मिक कार्य भी करना अनिवार्य होगा। किसी भी संस्था में कार्य कर रहे अभ्यर्थियों को उस संस्था से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। चयनित होने के उपरान्त योगदान देने के समय सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति आदेश में इंगित वांछित प्रमाण पत्रों के अतिरिक्त मूल रूप में **High School Marksheet cum Certificate** तथा **Internship Completion Certificate** छात्र अनुभाग (कक्ष संख्या-55) में जमा करना अनिवार्य होगा, जो कि त्यागपत्र/अवधि पूर्ण करने व नियमानुसार अनादेय प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने पर वापस कर दिया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।

आवश्यक नोट:- कालेज की वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन फार्म को पूर्ण कर वॉक इन इन्टरव्यू में अपने साथ लाना सुनिश्चित करें। साथ ही वर्तमान में इस चिकित्सा महाविद्यालय में नॉन पी0जी0/डिमान्सट्रेटर पद पर कार्यरत अभ्यर्थी, जिनका कार्यकाल एक माह से अधिक का शेष है, उक्त साक्षात्कार में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं होंगे।

(प्रधानाचार्य)

मेडिकल कालेज, कानपुर।

संख्या- 375 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

9. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को अपने विभाग के नोटिस बोर्ड में लगवाने की व्यवस्था अपने स्तर से करें तथा साथ ही सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
11. कुलसचिव/ प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, लखनऊ/ सैफई,इटावा/ मेरठ/ आगरा/ इलाहाबाद/ झांसी/ गोरखपुर/ अम्बेडकर नगर/ कन्नौज / जालौन / बांदा/सहारनपुर/बदायूं को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कार्यालय/छात्रावास की नोटिस बोर्ड तथा कालेज की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
12. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मेडिकल कालेज, कानपुर।
13. प्रभारी अधिकारी अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को समस्त मेडिकल कालेजों को ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
14. प्रभारी अधिकारी वेबसाइट, मेडिकल कालेज, कानपुर को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त सेवायोजन विज्ञप्ति को कालेज की वेबसाइट पर upload/प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
15. सूचना पट, कालेज/केन्द्रीय पुस्तकालय/छात्रावास, मेडिकल कालेज, कानपुर।
16. प्रधान लिपिक, अधिष्ठान/लेखा/कैशियर, मेडिकल कालेज, कानपुर।

(प्रधानाचार्य)

मेडिकल कालेज, कानपुर।

G.S.V.M. Medical College Kanpur



APPLICATION FOR THE POST OF NON PG JUNIOR RESIDENT/DEMONSTRATOR

(Min. Qualification- MBBS/MSC- Medical Biochem./Micro/Ana./SPM)

DEPARTMENT (ONE OR MULTIPLE)

1-NAME OF APPLICANT.....

2-FATHER'S NAME.....

3-DATE OF BIRTH.....

4-ADDRESS FOR CORRESPONDANCE.....

PHONE/MOBILE NO OF APPLICANT ONLY.....

5-CATEGORY OF APPLICANT GEN/ OBC/SC/ST/EWS

6 IF WORKED AS NON PG JR/DEMONSTRATOR IN GSVM, THAN MENTION THE DURATION & Department Name on following format:-

S.No.	Department Name	Duration Period
1		
2		
3		

7-EXPERIENCE

8- No. of Attempts taken while passing MBBS/MSC (Mention clearly)

8- TOTAL PERCENTAGE OF MBBS/ MSC

9- A- NAME OF INSTITUTION FROM WHERE MBBS/MSC COMPLETED.....

B- PERIOD

10- PERMANENT REGISTRATION No & REGISTRATION STATE

11- WHETHER DISCIPLINARY ACTION HAS BEEN TAKEN IF YES GIVE DETAILS

12- ADDITIONAL INFORMATION IF ANY

DECLARATION

I HEREBY SOLEMNLY & SINCERELY AFFIRM THAT THE STATEMENT MADE AND INFORMATION FURNISHED BY ME IN THE APPLICATION FROM AND ALSO IN THE ENCLOSURE THERE TO SUBMITTED BY ME ARE TRUE AND CORRECT, I HAVE NOT KEPT ANY INFORMATION SECRET SHOULD IT HOWEVER FOUND THAT MY INFORMATION FURNISHED, THERE IS FRADULANT, INCORRECT OR UNTRUE IN MATERIAL PARTICULARS, I REALISE THAT I AM LIABLE TO PROSECUTION AND I ALSO AGREE TO FOREGO MY APPOINTMENT IN THE COLLEGE FURTHER THAT THE SELECTION IS LIABLE TO BE CANCELLED. IF IN FUTURE ANY CANDIDATE SELECTED THROUGH COMPULSORY GOVERNMENT BOND BY SECRETARIAT/DGME MY TENURE/SERVICES WILL AUTOMATICALLY CANCELLED. I HAVE READ ALL THE TERMS & CONDITIONS AS NOTIFIED IN THE EMPLOYMENT NOTICE AND ALL TERMS & CONDITIONS ARE ACCEPTABLE TO ME AND I WILL ABIDE BY THEM

DATE

SIGNATURE OF APPLICANT

NOTE-

- 1- ATTACHED ATTESTED COPIES OF MARK SHEET, CERTIFICATE FOR QUALIFY YOUR STATEMENT.
- 2- GIVING FALSE STATEMENT OR WILL FULL CONCEALMENT / OMISION WILL DISQUALIFY THE CANDIDATE.
- 3- ANY TYPE OF CORRESPONDANCE/PRESSURD OF RECOMMENDATION WILL NOT BE ENTERTAINED AND CANDIDATE MAY BE DISQUALIFIED FOR THE ACT. ALL THE APPOINTMENT SHALL BE MADE IN PURSUANCE TO CONCERNED APPOINTED G.O.

SIGNATRE OF APPLICANT